

TABLE

| Period from date of certificate to date of its encashment     | Amount payable inclusive of interest (Rupees) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1)                                                           | (2)                                           |
| Three years or more, but less than three years and six months | 124.24                                        |
| Three years and six months or more, but less than four years  | 128.81                                        |
| Four years or more, but less than four years and six months   | 133.56                                        |
| Four years and six months or more, but less than five years   | 138.48”.                                      |

## EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11<sup>th</sup> November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Funds (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014, have been communicated vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II, dated the 4th March, 2014. It is certified that the interests of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.II)]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published vide number G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989, and subsequently amended vide numbers G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2<sup>nd</sup> August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 842(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 318(E), dated the 25th April, 2013, G.S.R. 397(E), dated the 25th June, 2013 and G.S.R. 226(E), dated the 13th March, 2014.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

**सा.का.नि. 495(अ).—**केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 है।  
(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 के उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(4) जहां कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2014 को या इसके पश्चात् क्रय किया गया है, वहां उसकी परिपक्वता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय प्रमाणपत्र के भुनाए जाने पर, ब्याज सहित संदेय रकम, 100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए 236.60 रुपये और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी। नीचे सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट ब्याज प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रमाणपत्र के धारक या धारकों को प्रोद्भूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में चौथे वर्ष की समाप्ति तक इस प्रकार प्रोद्भूत ब्याज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका धारक की ओर से पुनः विनिधान किया गया है और उसे प्रमाणपत्र के अंकित मूल्य की रकम के साथ जोड़ दिया गया है।

#### सारणी

| वर्ष के लिए अर्जित ब्याज | 100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम (रूपये में) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| पहला वर्ष                | 8.99                                                                                    |
| दूसरा वर्ष               | 9.80                                                                                    |
| तीसरा वर्ष               | 10.68                                                                                   |
| चौथा वर्ष                | 11.64                                                                                   |
| पांचवा वर्ष              | 12.69                                                                                   |
| छठा वर्ष                 | 13.83                                                                                   |
| सातवां वर्ष              | 15.08                                                                                   |
| आठवां वर्ष               | 16.43                                                                                   |
| नौवां वर्ष               | 17.91                                                                                   |
| दसवां वर्ष               | 19.52                                                                                   |

**टिप्पण:** किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी प्रमाणपत्र पर प्रोद्भूत होने वाली ब्याज की रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की आनुपातिक होगी।

3. उक्त नियमों के नियम 16 में,—

- (क) उप-नियम (4) के खंड (II) में, “1 अप्रैल, 2013” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2013 किंतु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उप नियम 4 के खंड (III) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(iv) यदि 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया कोई प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-नियम (1) के अधीन भुनाया जाता है, तो नियम 15 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज सहित संदेय रकम, जिसके अंतर्गत रियायत के समायोजन करने के पश्चात्, 100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रमाणपत्र के लिए नीचे की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी।

#### सारणी

| प्रमाणपत्र की तारीख से उसके भुनाए जाने की अवधि | ब्याज सहित संदेय रकम (रुपए) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| (1)                                            | (2)                         |
| 3 वर्ष या अधिक, किंतु 3 वर्ष और 6 मास से कम    | 124.24                      |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 3 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 4 वर्ष से कम  | 128.81     |
| 4 वर्ष या अधिक, किंतु 4 वर्ष और 6 मास से कम  | 133.56     |
| 4 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 5 वर्ष से कम  | 138.48     |
| 5 वर्ष या अधिक, किंतु 5 वर्ष और 6 मास से कम  | 144.50     |
| 5 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 6 वर्ष से कम  | 149.92     |
| 6 वर्ष या अधिक, किंतु 6 वर्ष और 6 मास से कम  | 155.55     |
| 6 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 7 वर्ष से कम  | 161.38     |
| 7 वर्ष या अधिक, किंतु 7 वर्ष और 6 मास से कम  | 167.43     |
| 7 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 8 वर्ष से कम  | 173.71     |
| 8 वर्ष या अधिक, किंतु 8 वर्ष और 6 मास से कम  | 180.22     |
| 8 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 9 वर्ष से कम  | 186.98     |
| 9 वर्ष या अधिक, किंतु 9 वर्ष और 6 मास से कम  | 193.99     |
| 9 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 10 वर्ष से कम | 201.27 .". |

### स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में को अपने का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-एन.एस.II (भाग), तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01-04-2014 से संशोधित की गई व्याज-दरों की सूचना अपने का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम सा.का.नि. 848 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 319 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 सा.का.नि. 403 (अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 227 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

**G.S.R. 495(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (IX Issue) Rules, 2011, namely:-

- (1) These rules may be called the National Savings Certificates (IX Issue) Amendment Rules, 2014.
  - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2014.
- In the National Savings Certificates (IX Issue) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 15, after Sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:-

“(4) Where a certificate has been purchased on or after the 1<sup>st</sup> day of April, 2014, the amount inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs.236.60 for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination and the interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

| Year for which interest accrues | Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs. 100 denomination |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| First Year                      | 8.99                                                                        |
| Second Year                     | 9.80                                                                        |
| Third Year                      | 10.68                                                                       |
| Fourth Year                     | 11.64                                                                       |
| Fifth Year                      | 12.69                                                                       |
| Sixth Year                      | 13.83                                                                       |
| Seventh Year                    | 15.08                                                                       |
| Eighth Year                     | 16.43                                                                       |
| Ninth Year                      | 17.91                                                                       |
| Tenth Year                      | 19.52                                                                       |

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.”.

3. In rule 16 of the said rules,-

- In clause (ii) of sub-rule (4), for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of April, 2013”, the figures, letters and word “1<sup>st</sup> day of April, 2013 but before the 1<sup>st</sup> day of April, 2014” shall be substituted;
- after clause (iii) of Sub-rule (4) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“(iv) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of certificate purchased on or after the 1<sup>st</sup> day of April 2014, the amount payable, inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

| Period from date of certificate to date of its encashment | Amount payable inclusive of interest (rupees) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1)                                                       | (2)                                           |
| 3 years or more, but less than 3 years and 6 months       | 124.24                                        |
| 3 years and 6 months or more, but less than 4 years       | 128.81                                        |
| 4 years or more, but less than 4 years and 6 months       | 133.56                                        |
| 4 years and 6 months or more, but less than 5 years       | 138.48                                        |
| 5 years or more, but less than 5 years and 6 months       | 144.50                                        |
| 5 years and 6 months or more, but less than 6 years       | 149.92                                        |
| 6 years or more, but less than 6 years and 6 months       | 155.55                                        |
| 6 years and 6 months or more, but less than 7 years       | 161.38                                        |
| 7 years or more, but less than 7 years and 6 months       | 167.43                                        |
| 7 years and 6 months or more, but less than 8 years       | 173.71                                        |
| 8 years or more, but less than 8 years and 6 months       | 180.22                                        |
| 8 years and 6 months or more, but less than 9 years       | 186.98                                        |
| 9 years or more, but less than 9 years and 6 months       | 193.99                                        |
| 9 years and 6 months or more, but less than 10 years      | 201.27 .”.                                    |

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) vide its O.M.No.6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11<sup>th</sup> November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Funds (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014 have been communicated vide its O.M. No.6-1/2011-NS.II, dated the 4<sup>th</sup> March, 2014. It is certified that the interest of no deposit holder would be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.II)]

RAJAT BHARGAVA Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published vide number G.S.R. 848(E), dated the 29<sup>th</sup> November, 2011, subsequently amended vide numbers G.S.R. 319 (E), dated the 25<sup>th</sup> April, 2012, G.S.R. 403 (E), dated the 25<sup>th</sup> June 2013 and G.S.R. 227 (E), dated the 13<sup>th</sup> March, 2014.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

**का.आ. 496(अ).**—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 5 के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि निधि में 01 अप्रैल, 2014 को अथवा उसके पश्चात किए गए अभिदानों तथा अभिदाता के खाते में जमा शेष राशियों पर 8.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर व्याज दिया जाएगा।

**स्पष्टीकारक ज्ञापन**

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में को अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस.॥ (भाग), तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01-04-2014 से संशोधित की गई व्याज-दरों की सूचना अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस.॥, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना का.आ. 48 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 192 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001, का.आ. 271 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002, का.आ. 250 (अ), तारीख 1 मार्च, 2003, का.आ. 2681 (अ), तारीख 25 नवंबर, 2011 और का. आ. 904 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 401 (अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 225 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2014

**G.S.R. 496(E).**—In pursuance of Section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968, (23 of 1968), the Central Government hereby notifies that the subscriptions made to the Fund on or after the 1<sup>st</sup> day of April, 2014 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.7 per cent per second proviso, following proviso shall be inserted, namely:—